



## रामाज्ञा स्कूल नौएडा

### ओलंपियाड हिन्दी मार्च (2017-18)

#### कक्षा -आठ

- दिए गए पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए पूछे गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प चुनिए -  
सच है विपत्ति जब आती है ,  
कायर को ही दहलाती है |  
सूरमा नहीं विचलित होते ,  
क्षण एक नहीं धीरज खोते |  
है कौन विघ्न , ऐसा जगत में ,  
टिक सके आदमी के मग में |  
खम ठोंक ठेलता है जब नर ,  
पर्वत के जाते पाँव उखड़ |  
मानव जब ज़ोर लगाता है ,  
पत्थर पानी बन जाता है |

1. विपत्ति आने पर कौन डर जाता है ?

(क) कायर

(ख) शूरवीर

(ग) पर्वत

(घ) पत्थर

2. विपत्ति के समय कौन धीरज नहीं खोता ?

(क) कायर

(ख) शूरवीर

(ग) पर्वत

(घ) पत्थर

3. पर्वत के पाँव कब उखड़ जाते हैं ?

(क) मानव के खम ठोकने पर

(ख) हवा चलने पर

(ग) तेज़ बारिश होने पर

(घ) विपत्ति आने पर

4. साहसी मनुष्य जब ज़ोर लगाता है , तब क्या होता है ?

(क) पर्वत उखड़ जाते हैं

(ख) पानी बहने लगता है

(ग) बारिश होती है

(घ) तूफान चलने लगता है

5. कायर का विलोम क्या है ?

(क) शूरवीर

(ख) पर्वत

(ग) पत्थर

(घ) दयालु

6. राम विद्यालय जायेगा || में काल है -

(क) वर्तमानकाल

(ख) भविष्यकाल

(ग) भूतकाल

(घ) क और ख दोनों

7. जो कभी न मरे |

(क) अजमारा

(ख) अजर

(ग) अमर

(घ) ग और ख दोनों

8. देशज शब्द नहीं है -

(क) हीरा

(ख) समोसा

(ग) लोटा

(घ) स्कूल

9. जिनका उच्चारण दाँत से हो, उसे कहते हैं ?

- (क) तालव्य (ख) कण्ठ्य  
 (ग) मूर्धन्य (घ) दन्त्य
10. नौ दो ग्यारह होना अर्थ है -  
 (क) बहुत प्यासा होना (ख) घबरा जाना  
 (ग) पक्का दुश्मन (घ) भाग जाना
11. तदैव का संधि - विच्छेद है -  
 (क) तदै + एव (ख) ता + एव  
 (ग) तद् + एव (घ) उपरोक्त सभी
12. माता - पिता में समास है -  
 (क) द्वंद्व (ख) तत्पुरुष  
 (ग) कर्मधारय (घ) बहुव्रीहि
13. कनक-कनक ते सौ गुनी ,मादकता अधिकाय  
 (क) अतिशयोक्ति (ख) उपमा  
 (ग) अनुप्रास (घ) उत्प्रेक्षा
14. 'मानव' संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है ?  
 (क) जातिवाचक (ख) द्रव्यवाचक  
 (ग) समूहवाचक (घ) व्यक्तिवाचक
15. 'अमृत' का विलोम है -  
 (क) दूध (ख) विष  
 (ग) धन (घ) जल
16. 'खुशी' का पर्यायवाची शब्द है -  
 (क) उल्लास (ख) गर्व  
 (ग) दया (घ) अम्बर
17. प्रातः जगावत् गुलाब चटकारी दे मदन महीपजू को बालक वसंत ताहि में किस रस का प्रयोग हुआ है ? |  
 (क) वीर रस (ख) वात्सल्य रस  
 (ग) वियोग रस (घ) श्रृंगार रस
18. 'चाबी' का बहुवचन रूप है -  
 (क) चाबीयाँ (ख) चाबी  
 (ग) चाबीए (घ) चाबयाँ
19. 'को' किस कारक का चिह्न है -  
 (क) कर्म (ख) कर्ता  
 (ग) करण (घ) अपादान
20. दुकानदार ..... आम तौल रहा है |  
 (क) दो किलो (ख) विशाल  
 (ग) दर्जन (घ) लीटर